



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 497]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1981/कार्तिक 16, 1903

No. 497]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1981/KARTIKA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य संचालन

(1)

(2)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1981

गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

अपने स्वामित्वाधीन, पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय, परिसर, अतिथि-गृह, शो-रूम, खुदरा दुकानें, गोबाम, आवासीय क्वार्टर/वाससुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है।

बल्लार्ड एस्टेट, 15, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, मुम्बई में स्थित "एन टी सी हाऊस" के परिसर जिसमें उक्त बिल्डिंग में स्थित सम्पर्क कार्यालय भी है।

श्री शारदा मिल्स, पोशानूर (तमिल-नाडु) के परिसर, जिसमें मिल के परिसर के भीतर या बाहर उसके स्वामित्वाधीन पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित परिसर और उसके कार्यालय, परिसर अतिथिगृह, शो-रूम, खुदरा दुकानें, गोबाम, कर्म-शालायें, आवासीय क्वार्टर भी हैं।

का० आ० 787 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेवखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं० का० आ० 374 (अ) तारीख 29 मई, 1976 को अधि-क्रान्त करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिका-रियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे यह विदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे:—

सारणी

अधिकारियों का पवाभियान	सरकारी स्थान
(1)	(2)
1. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पो- रेशन लिमिटेड, 8वीं मंजिल, सूर्य किरण बिल्डिंग 19, कस्तूरबा	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा समस्त भारत के विभिन्न शहरों और नगरों में

(1)	(2)	(1)	(2)
2. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एण्ड माहे) लिमिटेड, 29/2, चौथी मंजिल, के० एन० रोड, शान्तिनगर, बंगलौर।	श्री रंगविलास गिनिंग, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अविनाशी रोड, पीलामेडु, डाकघर, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) के परिसरों में स्थित एन० टी० सी० स्टाफ कालेज का भवन, परिसर आदि। नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एण्ड माहे) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय, परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/वास सुविधा, भूमि जिसमें कृषि भूमि भी है, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें साथ ही इन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित दुकानें, कार्यालय परिसर, खुदरा दुकानें, कर्मशालायें, कारखाने, आवासीय क्वार्टर भी हैं:—	3. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (दिल्ली, पंजाब एण्ड राजस्थान) लिमिटेड, 10वीं मंजिल, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉल्स-टाँय मार्ग, नई दिल्ली	12. नेता को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, 608, इलेचीगुडा, सिक्कंदराबाद (आंध्र प्रदेश) 13. पार्वती मिल्स, किलों (केरल) 14. श्री यल्लम्मा काटन, वूलन एण्ड सिल्क मिल्स, यल्ला-मानगर (कर्नाटक) 15. तिरुपति काटन मिल्स, रानीगुण्टा (आंध्र प्रदेश) 16. विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम (केरल) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (दिल्ली, पंजाब एण्ड राजस्थान) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय, परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम आवासीय क्वार्टर/वास सुविधा, भूमि जिसमें कृषि भूमि भी है, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें साथ ही इन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय, परिसर खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्मशालायें, कारखाने, आवासीय क्वार्टर परिसर भी हैं:—
	1. अडोनी काटन मिल, अलूर रोड, अडोनी (आंध्र प्रदेश) 2. अलगप्पा टेक्सटाइल (कोचीन,) मिल, अलगप्पानगर (केरल) 3. अनन्तपुर काटन मिल्स, ताड़ापट्टी (आंध्र प्रदेश) 4. आजम जही मिल्स, वारंगल (आंध्र प्रदेश) 5. कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नानोर (केरल) 6. कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माहे (पाण्डिचेरी) 7. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिवूर (केरल) 8. महबूब शाही गुलबर्गा मिल, गुलबर्गा (कर्नाटक) 9. मिनर्वा मिल्स, मल्लेश्वरम्, बंगलौर-3 (कर्नाटक) 10. मैसूर स्पिनिंग एण्ड मेन्यू-फेक्चरिंग मिल्स, मगधी रोड, बंगलौर (कर्नाटक) 11. नटराज, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, निर्मल आदिलाबाद जिला (आंध्र प्रदेश)	4. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात) लिमिटेड, 1791 आश्रम रोड, अहमदाबाद, (गुजरात)	1. अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स, आजादपुर, दिल्ली-33 2. दयालबाग स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अमृतसर (पंजाब) 3. एडवर्ड मिल्स, ब्याबर (राजस्थान) 4. खरार टेक्सटाइल मिल्स, खरार (पंजाब) 5. महालक्ष्मी मिल्स, ब्याबर (राजस्थान) 6. पानीपत वूलन मिल्स, खरार चण्डीगढ़ के पास (पंजाब) 7. श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर (राजस्थान) 8. सूरज टेक्सटाइल मिल्स, मालोट मण्डी (पंजाब) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय, परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/

1	2	3	1	2	3
		<p>बास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही इन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय, परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्म-शालायें, कारखाने, आवासीय क्वार्टर भी हैं :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अहमदाबाद जुपीटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स नं० 1, दधीचि रोड, अहमदाबाद (गुजरात)। 2. अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद (गुजरात)। 3. हिमाभाई, मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, सारसपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद (गुजरात)। 4. जहांगीर वकील मिल्स, दिल्ली, गेट के बाहर, अहमदाबाद (गुजरात)। 5. केशव मिल्स, पेटलांद, (गुजरात)। 6. महालक्ष्मी मिल्स, वरताज रोड भावनगर, (गुजरात)। 7. न्यू मानकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, ईदगाह गेट के सामने, अहमदाबाद-16 (गुजरात)। 8. प्रभा मिल्स, वीरमगाम (गुजरात)। 9. राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, करणसिंह जी क्रास रोड, राजकोट (गुजरात)। 10. राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, यूनिट नं० 1, दधीचि रोड, अहमदाबाद (गुजरात)। 11. राजनगर स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स यूनिट नं० 2, अहमदाबाद (गुजरात)। 			<p>सभी कार्यालय, परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/बास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय, परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्म-शालायें, कारखाने आवासीय क्वार्टर भी हैं :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बंगाल-नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव (मध्य प्रदेश)। 2. बुरहानपुर ताप्ति मिल्स, लाल बाग, बुरहानपुर, आर० एस० (निमाड़) (मध्य-प्रदेश)। 3. हीरा मिल्स, 1/10, हीरा मिल्स मार्ग, (आगरा रोड), उज्जैन, (मध्य प्रदेश)। 4. इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर (मध्य प्रदेश)। 5. कल्याणमल मिल्स 15, सिलनाथ केम्प, इन्दौर (मध्य प्रदेश)। 6. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स चांदबड़, तहसील हजूर, भोपाल (मध्य प्रदेश)। 7. स्वदेशी काटन एण्ड फ्लौर मिल्स, सिलनाथ केम्प, इन्दौर-3 (मध्य प्रदेश)।
5. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, एन० टी० सी० हाऊस, 27; यश-वंत निवास रोड, इन्दौर (म०प्र०)।	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित		6. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (उत्तरी महाराष्ट्र) लिमिटेड, एन टी सी हाऊस, 15, नभोत्तम मोरारजी मार्ग, मुम्बई	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (उत्तरी महाराष्ट्र) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/बास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय, परिसर, खुदरा, दुकानें, गोदाम, कर्म-	

1	2	3	1	2	3
	शालाये, कारखाने, आवासीय क्वार्टर भी हैं :—			उनके कार्यालय, परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्म शालायें, कारखानें, आवासीय क्वार्टर भी हैं :—	
	1. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 1, अम्बेडकर मार्ग मुम्बई-12 (महाराष्ट्र) ।			1. अहमद जुपीटर स्पिनिंग, बीविंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग मिल्स, मिल नं० 2, परेल, मुम्बई-13 (महाराष्ट्र) ।	
	2. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 2, भोगल मार्ग, मुम्बई-33 (महाराष्ट्र) ।			2. अपोलो मिल्स, एम० एम० जोशी मार्ग, चिन्चपोकली, मुम्बई-11 (महाराष्ट्र) ।	
	3. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स मिल नं० 3, भोगल मार्ग, मुम्बई-33, (महाराष्ट्र) ।			3. औरंगाबाद मिल्स, औरंगा- बाद, (महाराष्ट्र) ।	
	4. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 4, टी० जी० कदम मार्ग, मुम्बई-33 (महाराष्ट्र) ।			4. छगनलाल टैक्सटाइल मिल्स चालीसगांव (पूर्वी खानदेश) (महाराष्ट्र) ।	
	5. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, मिल नं० 5, चिन्चपोकली लेन, मुम्बई-27 (महाराष्ट्र) ।			5. दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, लाल बाग, परेल, मुम्बई,	
	6. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, डाई, बक्स, सावरकर मार्ग मुम्बई-28 (महा- राष्ट्र) ।			6. एडवर्ड, टैक्सटाइल मिल्स, फार्ग्यूसन रोड, लोअर परेल, मुम्बई (महाराष्ट्र) ।	
	7. माडल मिल्स, नागपुर, उमरार रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) ।			7. जय शंकर मिल्स, बरसी जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) ।	
	8. आर० बी० बंशीलाल, अबीर चंद स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, हिंगनघाट (महाराष्ट्र) ।			8. न्यू केशर-ए-हिन्द स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, गोरुप देव रोड, चिन्चपोकली, मुम्बई-33, (महाराष्ट्र) ।	
	9. आर० एस० आर० गोपाल- दास मोहता स्पिनिंग एण्ड बीविंग मिल्स, अकोला (महाराष्ट्र) ।			9. न्यू प्रताप स्पिनिंग, बीविंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग मिल्स, धूलिया पश्चिमी खान देश (महाराष्ट्र) ।	
	10. सेवतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला (महाराष्ट्र) ।			10. उस्मानशाही मिल्स, मिल रोड, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	
	11. विदर्भ मिल्स (बरार) एलीचपुर (महाराष्ट्र) ।			11. सेक्सरिया काटन मिल्स, बेलस्ले रोड, परेल, मुम्बई (महाराष्ट्र) ।	
7. सचिव, नेशनल टैक्सटाइल कार्पो- रेशन (दक्षिणी महाराष्ट्र) लिमि- टेड एन० टी० सी० हाऊस, 15, नरोत्तम मोरार जी मार्ग, मुम्बई ।	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (दक्षिणी महाराष्ट्र) लिमिटेड के स्वामित्वा- धीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय, परिसर, शो- रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवा- सीय क्वार्टर/वास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामि- त्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित		8. सचिव, नेशनल टैक्सटाइल कार्पो- रेशन (तमिलनाडु एण्ड पाण्डि- चेरी) लिमिटेड, कोयम्बटूर ।	नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (तमिल- नाडु एण्ड पाण्डिचेरी) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्या- लय, परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वा- र्टर/वास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है, इसके अन्त- र्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके	

1	2	3
		द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्मशालाएं, कारखाने, आवासीय क्वार्टर भी हैं:-
		1. बलराम वर्मा टेक्सटाइल मिल, गोनकोट्टे (तमिलनाडु)
		2. कम्बोडिया मिल्स, प्रोडोपु-डूर, कोयम्बटूर-16 (तमिलनाडु)
		3. कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, मेट्टुपालयम् रोड, कोयम्बटूर-11 (तमिलनाडु)
		4. कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड बीकिंग मिल्स, कृष्णास्वामी मुदालिश्वर रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।
		5. कालेश्वरर मिल्स, "ए" यूनिट, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
		6. कालेश्वरर मिल्स, "बी" यूनिट कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
		7. कृष्णावेणी टेक्सटाइल मिल्स, त्रिची रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
		8. ग्रोम् पराशक्ति मिल्स, कृष्णरायपुरम, गणपति, डाकघर-कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
		9. पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
		10. पायोनियर स्विनर्स, पायोनियर नगर (तमिलनाडु)
		11. सोमसुन्दरम् मिल्स, 10/64, सोमसुन्दरम् मिल रोड, कोयम्बटूर, (तमिलनाडु)
		12. श्री भारती मिल्स, मुवलियार पेट, पाण्डिचेरी
		13. श्री कोठाण्णम् स्पिनिंग मिल्स, मडुरै (तमिलनाडु)
		14. श्री रंगविलास गिनिंग, स्पिनिंग एण्ड बीकिंग मिल्स, अविनाशी रोड, पीलामाडु, डाकघर — कोयम्बटूर-11, (तमिलनाडु)

1	2	3
9. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, "सिम्बरटन" 14/82, सिविल लाइन कानपुर (उ० प्र०)	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय परिसर, शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/वास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्मशालाएँ, कारखाने आवासीय क्वार्टर भी हैं :-	
		1. बिजली कौटन मिल्स, मेण्डू रोड, हाथरस, (उत्तर प्रदेश)
		2. लाई कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
		3. मुर्हर मिल्स, सिविल लाइन्स कानपुर (उत्तर प्रदेश)
		4. न्यू विक्टोरिया मिल्स, 14/1, सिविल लाइन्स, कानपुर (उत्तर प्रदेश),
		5. श्री विक्रम काटन मिल्स, तालकटोरा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
10. सचिव, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा) लिमिटेड, 7, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-700013 (पश्चिमी बंगाल)	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित सभी कार्यालय परिसर शो-रूम/खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/वास सुविधा, भूमि, जिसमें कृषि भूमि भी है, इनके अन्तर्गत निम्नलिखित मिलें, साथ ही उन मिलों के परिसर के भीतर या बाहर उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा पट्टे पर दिये गये या पट्टे पर धारित उनके कार्यालय परिसर, खुदरा दुकानें, गोदाम, कर्मशालाएं कारखाने, आवासीय क्वार्टर भी हैं :-	
		1. भारती कौटन मिल्स, दासनगर, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल)

1

2

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1981

2. एसोशियेटेड इण्डस्ट्रीज
(ग्राम) (स्पिनिंग यूनिट)
चम्पुपुर, जिला-कामरूप,
(ग्राम)

3. बंगाली काटन मिल्स, सोडे-
पुर (पश्चिमी बंगाल)

4. बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड
वीविंग मिल्स नं० 1,
कोण नगर, जिला-हुगली
(पश्चिमी बंगाल)

5. बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड
वीविंग मिल्स नं० 2,
काटागंज, जिला नादिया
(पश्चिमी बंगाल)

6. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स
सेरमपुर, जिला हुगली
(पश्चिमी बंगाल)

7. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स,
कासिम बाजार (पश्चिमी
बंगाल)

8. बिहार को-ऑपरेटिव वीविंग
स्पिनिंग मिल्स, मोकामा,
पटना (बिहार)

9. सेण्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा
(पश्चिमी बंगाल)

10. गया काटन एण्ड जूट मिल्स,
गया (बिहार)

11. ज्योति वीविंग फेक्ट्री, 69,
एस० के० देव रोड
कलकत्ता-48 (पश्चिमी
बंगाल)

12. कनोडिया इण्डस्ट्रीज (काटन
मिल सेक्शन) कोण नगर
(पश्चिमी बंगाल)

13. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स,
रिश्र (पश्चिमी बंगाल)

14. मणीन्द्र मिल्स, कासिम
बाजार (पश्चिमी बंगाल)

15. उड़ीसा काटन मिल्स, भगत-
पुर कटक (उड़ीसा)

16. रामपुरिया काटन मिल्स,
सेरमपुर (पश्चिमी बंगाल)

17. श्री महालक्ष्मी मिल्स, पार्लटा
(पश्चिमी बंगाल)

18. सोडेपुर काटन मिल्स,
सोडेपुर (पश्चिमी बंगाल)

हस्ता० (अपठनीय)
संयुक्त सचिव

[सं० का० 11021/3/79 एन टी सी]

S.O. 787(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the Notification No. S. O. 374(E) dated the 29th May, 1976, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (1) of the Table below, being Officers equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government to be the Estate Officers for the purposes of the said act and further, directs that the said Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said act within the local limits of their respective jurisdictions, in respect of the public premises specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Designation of the Officers	Public premises
(1)	(2)
1. Secretary, National Textile Corporation Limited, 8th Floor Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.	All Offices, premises, guest house, show-rooms, retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land, owned, leased or held on lease by the National Textile Corporation Limited, New Delhi and in various cities and towns spread all over India.
	Premises of 'NTC House' situated at Ballard Estate, 15, Narotam Morarjee Marg, Bombay including Liaison Office situated in the said building.
	The premises of Sri Sarda Mills, Podanur (Tamil Nadu) together with offices, premises, guest house, show-rooms, retail shops, godowns, workshops, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the premises of the mill.
	Building, premises etc. of "NTC Staff College" situated in the premises of Sri Rangavilas Ginning, Spinning and Weaving Mills, Avanashi Road, Peelamedu P. O., Coimbatore (Tamil Nadu).
2. Secretary National Textile Corporation (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Mahe) Limited, 29/2, 3rd floor, K. H. Road, Shantinagar, Bangalore.	All offices, premises, show-rooms/retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land owned, leased or held on lease

(1)	(2)	(1)	(2)
	by National Textile Corporation (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Mahe) Limited including the following mills together with their shops, Offices, premises, retail shops, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—		16. Vijaymohini Mills, Trivandrum (Kerala).
	1. Adoni Cotton Mills, Alur Road, Adoni (Andhra Pradesh).	3. Secretary National Textile Corporation (Delhi, Punjab, Rajasthan) Limited, 10th Floor, Vandana Building, 11 Tolstoy Marg, New Delhi.	All offices, premises, show rooms/ retail shops, godowns, residential quarters/ Accommodation, land including agricultural land owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (Delhi, Punjab and Rajasthan) Limited, including the following mills, together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises, owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—
	2. Algappa Textile (Cochin) Mills, Algappanagar, (Kerala).		1. Ajudhia Textile Mills, Azadpur, Delhi-33.
	3. Anantapur Cotton Mills, Tadapatri (Andhra Pradesh).		2. Dayalbagh Spinning and Weaving Mills, Amritsar (Punjab).
	4. Azam Zahi Mills, Warangal (Andhra Pradesh).		3. Edward Mills, Beawar (Rajasthan).
	5. Cannanore Spinning and Weaving Mills, Cannanore (Kerala).		4. Kharar Textile Mills, Kharar (Punjab).
	6. Cannanore Spinning and Weaving Mills, Mahe (Pondicherry).		5. Mahalakshmi Mills, Beawar (Rajasthan).
	7. Kerala Lakshmi Mills, Trichur (Kerala).		6. Panipat Woollen Mills, Kharar Near Chandigarh (Punjab).
	8. Mahboob Shahi Gulbarga Mill, Gulbarga (Karnataka).		7. Shree Bijay Cotton Mills Bijainagar (Rajasthan).
	9. Minerva Mills, (Malleswaram, Bangalore-3 (Karnataka).		8. Suraj Textile Mills, Malout Mandi (Punjab).
	10. Mysore Spinning and Manufacturing Mills, Magadi Road, Bangalore (Karnataka).	4. Secretary, National Textile Corporation (Gujarat) Limited, 1791, Ashram Road, Ahmedabad (Guj.).	All offices, premises, show-rooms/retail shops, godowns, residential quarters/accommodations, land including agricultural land, owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (Gujarat) Limited including the following mills together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—
	11. Natraj Spinning and Weaving Mills, Nirmal, Adilabad. Distt. (Andhra Pradesh).		1. Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Mills No. 1 Dadheechi Road, Ahmedabad (Gujarat).
	12. Netha Cooperative Spinning Mills, 608, Elechiguda, Secunderabad-3 (Andhra Pradesh).		
	13. Parvathi Mills, Quilon (Kerala).		
	14. Sree Yallamma Cotton, Woollen and Silk Mills, (Kerala).		
	15. Tirupathi Cotton Mills, Renigunta (Andhra Pradesh).		

(1)	(2)	(1)	(2)
<p>5. Secretary, National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Limited, 'NTC House' 27, Yaswant Niwas Road, Indore. (MP).</p>	<p>2. Ahmedabad New Textile Mills, Outside Raipur, Raipur Gate, Ahmedabad (Gujarat).</p> <p>3. Himabhai Manufacturing Mills, Outside Saraspur Gate, Ahmedabad (Guj.).</p> <p>4. Jahangir Vakil Mills, Outside Delhi Gate, Ahmedabad (Gujarat).</p> <p>5. Keshav Mills, Patlad (Gujarat).</p> <p>6. Mahalaxmi Mills, Vartaj Road, Bhavnagar (Gujarat).</p> <p>7. New Maneckchock Spinning and Weaving Mills, opp. Idgah Gate, Ahmedabad-13 (Gujarat).</p> <p>8. Prabha Mills, Viramgam (Gujarat).</p> <p>9. Rajkot Spinning and Weaving Mills, Karansinhji Cross Road, Rajkot (Gujarat).</p> <p>10. Rajnagar Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Unit No. 1 Dad-heechi Road, Ahmedabad (Gujarat).</p> <p>11. Rajnagar Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Unit No. 2 Ahmedabad (Gujarat).</p>	<p>6. Secretary, National Textile Corporation (Maharashtra North) Limited, 'NTC House' 15, Narottam Morarjee Marg, Bombay.</p>	<p>4. Indore Malwa United Mills, Indore (Madhya Pradesh).</p> <p>5. Kalyanmal Mills, 15, Silnath Camp, Indore (Madhya Pradesh).</p> <p>6. New Bhopal Textile Mills, Chandbar, Tehsil Hazur, Bhopal (Madhya Pradesh).</p> <p>7. Swadeshi Cotton & Flour Mills, Silnath Camp, Indore-3 (Mahhya Pradesh).</p> <p>All offices, premises, show rooms retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (Maharashtra North) Limited, including the following Mills together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises, owned, leased or held on lease within or outside the mill premises:—</p> <p>1. India United Mills, Mill No. 1, "Ambedkar Marg, Bombay-12 (Maharashtra).</p> <p>2. India United Mills, Mill No. 2, Bhogale Marg, Bombay-33 (Maharashtra).</p> <p>3. India United Mills, Mill No. 3, Bhogale Marg, Bombay-33 (Maharashtra).</p> <p>4. India United Mills, Mill No. 4, T. B. Kadam Marg, Bombay-33 (Maharashtra).</p> <p>5. India United Mills, Mill No. 5 Chinchpokli Lane, Bombay-27 (Maharashtra).</p> <p>6. India United Mills, Dye Works, Savarkar Marg, Bombay-28 (Maharashtra).</p> <p>7. Model Mills, Nagpur, Umrar Road, Nagpur (Maharashtra).</p> <p>8. R. B. Bansilal Abirchand Spinning and Weaving Mills, Hinganghat. (Maharashtra).</p>

(1)	(2)	(1)	(2)
7. Secretary, National Textile Corporation (South Maharashtra) Limited, NTC House, 15, Narotam Morarjee Marg, Bombay.	<p>9. R. S. R. Gopaldas Mohita Spinning and Weaving Mills, Akola (Maharashtra).</p> <p>10. Savatram Ramprasad Mills, Akola (Maharashtra).</p> <p>11. Vidarbha Mills (Berar) Ellichpur (Maharashtra).</p> <p>All offices, premises, show-rooms/retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land, owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (South Maharashtra) Limited including the following mills together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmedabad Jupiter Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Mill No. 2, Parel, Bombay-13 (Maharashtra). 2. Apollo Mills, N. M. Joshi Murg, Chinchpokli, Bombay-11. (Maharashtra) 3. Aurangabad Mills, Aurangabad (Maharashtra). 4. Chhaganlal Textile Mills, Claisgaon, East Khandesh (Maharashtra). 5. Digvijay Spinning and Weaving Mills, Lalbagh, Parel, Bombay. 6. Edward Textile Mills, Ferguson Road, Lower Parel, Bombay (Maharashtra). 7. Jayashanker Mills Barsi, Distt. Sholapur (Maharashtra). 8. New Kaiser-i-Hind Spinning and Weaving Mills, Gorupdeo Road, Chinchpokli, Bombay-33 (Maharashtra). 9. New Patap Spinning, Weaving and Manufacturing Mills, Dhulia, West Khandesh (Maharashtra). 	8. Secretary, National Textile Corporation (Tamil Nadu & Pondicherry) Limited, Coimbatore.	<p>10. Osmanshahi Mills, Mill Road, Nanded (Maharashtra)</p> <p>11. Seksaria Cotton Mills, Delisle Road, Parel, Bombay (Maharashtra).</p> <p>All offices, premises, show-rooms/retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land, owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (Tamil Nadu and Pondicherry) Limited including the following mills together with their offices, premises, retail shops, godowns, work-shops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balaram Varma Textile Mills, Shencottah (Tamil Nadu). 2. Combodia Mills, Ondipudur, Coimbatore-16. (Tamil Nadu). 3. Coimbatore Murugan Mills, Mettupalayam Road, Coimbatore-11 (Tamil Nadu). 4. Coimbatore Spinning and Weaving Mills, Krishna-swamy Mudaliar Road, Coimbatore (Tamil Nadu). 5. Kalceswarar Mills, 'A' Unit, Coimbatore (Tamil Nadu). 6. Kalceswarar Mills 'B' Unit, Kalayanarkoil, Distt. Ramnad (Tamil Nadu). 7. Kishnaveni Textile Mills, Trichy Road, Coimbatore (Tamil Nadu). 8. Om Parasakthi Mills, Krishnarayappuram, Ganpathy, P. O. Coimbatore (Tamil Nadu). 9. Pankaja Mills, Coimbatore (Tamil Nadu) 10. Pioneer Spinners, Pioneer Nagar (Tamil Nadu).

(1)	(2)	(1)	(2)
9. Secretary, National Textile Corporation (Uttar Pradesh) Limited, 'Salverton' 14/82, Civil Lines, Kanpur (U.P.)	<p>11. Somasundaram Mills, 10/64, Somasundaram Mill Road, Coimbatore (Tamil Nadu)</p> <p>12. Sri Bharathi Mills, Mudaliparpet, Pondicherry.</p> <p>13. Sri Kothandram Spinning Mills, Madurai (Tamil Nadu)</p> <p>14. Sri Ranga Vilas Ginning, Spinning and Weaving Mills, Avanashi Road, Peelamadu, P. O. Coimbatore-11. (Tamil Nadu).</p> <p>All Offices, premises, showrooms/retail shops, godowns, residential quarters/accommodation, land including agricultural land owned, leased or held on lease by National Textile Corporation (Uttar Pradesh) Limited including the following mills together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mill premises :—</p> <p>1. Bijili Cotton Mills, Mendu Road, Hathras (Uttar Pradesh).</p> <p>2. Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur (Uttar Pradesh).</p> <p>3. Muir Mills, Civil Lines, Kanpur (Uttar Pradesh).</p> <p>4. New Victoria Mills, 14/1, Civil Lines, Kanpur (Uttar Pradesh).</p> <p>5. Shri Vikram Cotton Mills, Talkatora, Lucknow (Uttar Pradesh).</p>	<p>downs, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased, or held on lease within or outside the mill premises :—</p> <p>1. Arati Cotton Mills, Dasnagar, Howrah (West Bengal).</p> <p>2. Associated Industries (Assam) Spinning Unit Chandrapur, Distt. Kamrup (Assam).</p> <p>3. Bangasri Cotton Mills Sodepur (West Bengal),</p> <p>4. Bengal Fine and Spinning and Weaving Mills No. 1, Konnagar, Distt. Hugli (West Bengal).</p> <p>5. Bengal Fine Spinning and Weaving Mills No. 2, Kataganj, Distt. Nadiad (West Bengal).</p> <p>6. Bengal Luxmi Cotton Mills, Serampore, Distt. Hooghly (West Bengal).</p> <p>7. Bengal Textile Mills, Cossimbazar (West Bengal).</p> <p>8. Bihar Cooperative Weavers' Spinning Mills, Mokameh, Patna (Bihar)</p> <p>9. Central Cotton Mills Howrah (West Bengal).</p> <p>10. Gaya Cotton & Jute Mills, Gaya (Bihar).</p> <p>11. Jyoti Weaving Factory, 69 S. K. Dev Road Calcutta-48. (West Bengal)</p> <p>12. Kanoria Industries (Cotton Mill Section) Konnagar (West Bengal).</p> <p>13. Laxminarain Cotton Mill, Rishra, (West Bengal).</p> <p>14. Manindra Mills, Cossimbazar (West Bengal).</p> <p>15. Orissa Cotton Mills, Bhagatpur, Cuttack (Orissa).</p> <p>16. Rampuria Cotton Mills Serampore, (West Bengal.)</p> <p>17. Shree Mahalaxmi Mills Palta (West Bengal).</p> <p>18. Sodepur Cotton Mills Sodepur. (West Bengal)</p>	<p>[F. No. 11021/3/79-NTC] Sd./- Illegible Jt. Secy.</p>